

This Question Paper consists of 33 questions and 16 printed pages + Graph Sheet.

इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न तथा 16 मुद्रित पृष्ठ + ग्राफ शीट हैं।

Sl. No.

Roll No.
अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Code No. 60/OSS/1
कोड नं.

Set / सेट A

**MATHEMATICS
(गणित)
(311)**

Day and Date of Examination :

(परीक्षा का दिन व दिनांक) _____

Signature of Invigilators : 1. _____

(निरीक्षकों के हस्ताक्षर) 2. _____

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
4. Write your Question Paper Code No. 60 / OSS / 1, Set - A on the Answer-Book.
5. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :
English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Oriya, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.
You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.
(b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the questions will be yours only.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक आवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें की प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें की प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जायेगा।
4. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र की कोड संख्या 60 / OSS / 1, सेट - A लिखें।
5. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिंदी/अंग्रेजी माध्यम में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं : अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, मराठी, उडिया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
(ख) यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं, तो प्रश्नों को समझने में होने वाली त्रुटियों/गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।



MATHEMATICS

(गणित)

(311)

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 100

समय : 3 घण्टे]

[पूर्णांक : 100

Note : (1) This question paper consists of four Sections A, B, C and D containing 33 questions.

- (2) Question Number **1 to 10** in **Section A** are multiple choice questions (MCQ). Each question carries **one mark**. In each question there are four choices (A), (B), (C) and (D) of which only one is correct. You have to select the correct choice and indicate it in your answer book by writing (A), (B), (C) or (D) as the case may be. No separate time is allotted for attempting MCQ.
- (3) Question Number **11 to 16** in **Section B** are very short answer questions and carry **2 marks** each.
- (4) Question Number **17 to 28** in **Section C** are short answer questions and carry **4 marks** each.
- (5) Question Number **29 to 33** in **Section D** are long answer questions and carry **6 marks** each.
- (6) All questions are **compulsory**. There is no overall choice, however, alternative choices are given in some questions. In such questions, you have to attempt only one choice.

निर्देश: (1) इस प्रश्न पत्र में कुल 33 प्रश्न हैं, जो चार खण्डों अ, ब, स तथा द में विभाजित हैं।

- (2) खण्ड-अ में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक तथा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में (A), (B), (C) तथा (D) चार विकल्प दिए गए हैं जिन में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प चुनना है तथा अपनी पुस्तिका में (A), (B), (C) तथा (D) में जो सही हो उत्तर के रूप में लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने के लिए अलग से समय नहीं दिया गया है।
- (3) खण्ड - ब में प्रश्न संख्या 11 से 16 तक अति लघुउत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक के 2 अंक निर्धारित हैं।
- (4) खण्ड - स में प्रश्न संख्या 17 से 28 तक उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित हैं।
- (5) खण्ड - द में प्रश्न संख्या 29 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक के 6 अंक निर्धारित हैं।
- (6) सभी प्रश्न **अनिवार्य** हैं। पूर्ण प्रश्नपत्र में विकल्प नहीं हैं, फिर भी कुछ प्रश्नों में, आंतरिक विकल्प हैं। ऐसे सभी प्रश्नों में से आपको एक ही विकल्प हल करना है।



SECTION-A

खण्ड-अ

1. If $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, then A is equal to [1]

(A) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

यदि $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ है, तो A बराबर है :

(A) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

2. $\cos(\tan^{-1} x)$ is equal to [1]

(A) $\frac{1}{x^2 + 1}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

(C) $\frac{1}{x^2 - 1}$

(D) $\sqrt{x^2 - 1}$



$\cos(\tan^{-1} x)$ बराबर है :

(A) $\frac{1}{x^2 + 1}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

(C) $\frac{1}{x^2 - 1}$

(D) $\sqrt{x^2 - 1}$

3. Let $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be defined by $f(x) = 2x + 3$, $x \in \mathbb{N}$. Then f is [1]

- (A) one to one but not onto
(B) onto but not one to one
(C) neither one to one nor onto
(D) one to one and onto

माना $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ पर $f(x) = 2x + 3$, $x \in \mathbb{N}$ द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो f एक

- (A) एकेकी परन्तु आछादक नहीं, फलन है
(B) आछादक परन्तु एकेकी नहीं, फलन है
(C) न तो एकेकी और न ही आछादक, फलन है
(D) एकेकी और आछादक, फलन है

4. $\int_2^3 \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{2-x} + \sqrt{x-3}} dx$ is equal to [1]

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 0

(C) -1

(D) $\frac{\pi}{4}$



$\int_2^3 \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{2-x} + \sqrt{x-3}} dx$ बराबर है :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 0

(C) -1

(D) $\frac{\pi}{4}$

5. $\int \left[\frac{1}{\log x} - \frac{1}{(\log x)^2} \right] dx$ is equal to [1]

(A) $\frac{x}{\log x} + c$

(B) $\frac{2x}{\log x} + c$

(C) $\frac{x}{2\log x} + c$

(D) $\frac{1}{\log x} + c$

$\int \left[\frac{1}{\log x} - \frac{1}{(\log x)^2} \right] dx$ बराबर है :

(A) $\frac{x}{\log x} + c$

(B) $\frac{2x}{\log x} + c$

(C) $\frac{x}{2\log x} + c$

(D) $\frac{1}{\log x} + c$



6. If $y = x^{\tan x}$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to [1]

(A) $y \frac{\tan x - x(\log x)\sec^2 x}{x}$

(B) $y \frac{\tan x + x(\log x)\sec^2 x}{x}$

(C) $\frac{(\tan x - \sec^2 x)}{x}$

(D) $\frac{(x \tan x + \sec^2 x)}{x}$

यदि $y = x^{\tan x}$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ बराबर है :

(A) $y \frac{\tan x - x(\log x)\sec^2 x}{x}$

(B) $y \frac{\tan x + x(\log x)\sec^2 x}{x}$

(C) $\frac{\tan x - \sec^2 x}{x}$

(D) $\frac{(x \tan x + \sec^2 x)}{x}$

7. General solution of the differential equation is $\frac{dy}{dx} = 4 \tan y$ equal to [1]

(A) $\sin y = ce^x$

(B) $y = \sin^{-1}(ce^{4x})$

(C) $y = \cos^{-1}(ce^{4x})$

(D) $y = \sin^{-1}(ce^{-4x})$

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = 4 \tan y$ का व्यापक हल है :

(A) $\sin y = ce^x$

(B) $y = \sin^{-1}(ce^{4x})$

(C) $y = \cos^{-1}(ce^{4x})$

(D) $y = \sin^{-1}(ce^{-4x})$



8. Which of the following statement is true? [1]

- (A) Chord of a circle is double of its radius
- (B) Concentric circles have different radius
- (C) If a number has more than two factors then it is not composite
- (D) 25 is a multiple of 8.

निम्न में से कौनसा कथन सही है?

- (A) एक वृत्त की जीवा उसके अर्ध-व्यास से दुगनी होती है।
- (B) एक ही केन्द्र वाले वृत्तों का अर्ध-व्यास भिन्न होते हैं।
- (C) यदि किसी एक संख्या के गुणनखंड दो से अधिक हैं, तो वह संख्या भाज्य नहीं है।
- (D) 25, 8 का गुणज है।

9. The value of x for which $f(x) = |x - 1|$ is not differentiable, is; [1]

- (A) -1
- (B) 2
- (C) 0
- (D) 1

x का वह मान, जिसके लिए $f(x) = |x - 1|$ द्वारा परिभाषित फलन अवकलनीय नहीं है, है :

- (A) -1
- (B) 2
- (C) 0
- (D) 1



- 10.** If the perpendicular distance from the point $(2, K, 0)$ to the plane $4x - 2y + 3z = 12$

is $\frac{4}{\sqrt{29}}$ unit, then possible values of K are : [1]

बिन्दु $(2, K, 0)$ से तल $4x - 2y + 3z = 12$ की लम्बवत् दूरी $\frac{4}{\sqrt{29}}$ इकाई है। K के सम्भवतः मान हैं :

SECTION-B

ਖਣਡ - ਬ

- 11.** If $A = \begin{pmatrix} 0 & -7 & 43 \\ 7 & 0 & -47 \\ -43 & 47 & 0 \end{pmatrix}$, then show that $|A| = 0$. [2]

यदि $A = \begin{pmatrix} 0 & -7 & 43 \\ 7 & 0 & -47 \\ -43 & 47 & 0 \end{pmatrix}$ है, तो दर्शाइए कि $|A| = 0$

OR/अथवा

For $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, verify that $|A^2| = (|A|)^2$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ के लिए सत्यापित कीजिए कि $|A^2| = (|A|)^2$



12. Let R be relation defined on the set of natural numbers \mathbb{N} as follows $R = \{(x, y) : x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ and } 3x - y = 12\}$. Find the domain and range of the relation R. [2]

प्राकृत संख्याओं के समुच्चय \mathbb{N} पर, सम्बन्ध R निम्न द्वारा परिभाषित है :

$R = \{(x, y) : x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ और } 3x - y = 12\}$ सम्बन्ध R का प्रान्त व परिसर ज्ञात कीजिए।

13. Evaluate $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$. [2]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

14. Find the derivative of $\sin x^3$ with respect to x^2 . [2]

$\sin x^3$ का, x^2 के सापेक्ष, अवकलज ज्ञात कीजिए।

15. If $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ and $\vec{b} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$ represent two adjacent sides of a triangle, then find the angle between them. [2]

यदि एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएँ $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ तथा $\vec{b} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$ द्वारा निरूपित हो तो, इन भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।



16. Write the converse the following statements :

[2]

- If game is cancelled, then team A is win.
- If a is a multiple of b then b is a factor of a .

निम्न कथनों के विलोम लिखिए :

- यदि खेल रद्द होता है, तो टीम A जीतती है।
- यदि a, b का गुणज है, तो b, a का गुणनखंड है।

SECTION - C

खण्ड - स

17. Show that $\begin{vmatrix} a^2 + 2a & 2a+1 & 1 \\ 2a+1 & a+2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (a-1)^3$. [4]

दर्शाइए कि $\begin{vmatrix} a^2 + 2a & 2a+1 & 1 \\ 2a+1 & a+2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (a-1)^3$

18. If $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$, find x and y so that $A^2 + xI_2 = yA$. [4]

यदि $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$ के लिए $A^2 + xI_2 = yA$ है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए।



19. Solve the following equation for $x(x > 0)$: $\sin^{-1} \frac{6}{x} + \sin^{-1} \frac{8}{x} = \frac{\pi}{2}$ [4]

$x(x > 0)$ के लिए निम्न समीकरण को हल कीजिए : $\sin^{-1} \frac{6}{x} + \sin^{-1} \frac{8}{x} = \frac{\pi}{2}$

20. Determine the values of a, b for which the function [4]

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x+2|}{x+2} - a, & x < -2, \\ a+b, & x = -2, \\ 2x+b, & x > -2 \end{cases}$$

is continuous at $x = -2$.

a और b के वे मान ज्ञात कीजिए, जिनके लिए फलन

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x+2|}{x+2} - a, & x < -2, \\ a+b, & x = -2, \\ 2x+b, & x > -2 \end{cases}$$

$x = -2$ पर सतत है।

21. Find the interval in which the function $f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 12x + 20$ are increasing or decreasing. [4]

वे अंतराल ज्ञात कीजिए, जिन पर फलन $f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 12x + 20$ वर्धमान या हासमान है।

OR/अथवा



Verify Rolle's theorem for the function $f(x) = e^x \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$.

फलन $f(x) = e^x \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ के लिए रोले के प्रमेय का सत्यापन कीजिए।

22. Divide the number 75 into two parts such that product of one part and square of the other part is maximum. [4]

संख्या 75 को दो भागों में विभाजित कीजिए, जिससे पहले भाग और दुसरे भाग के वर्ग का गुणनफल अधिकतम है।

23. Find $\int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)} dx$. [4]

$\int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)} dx$ ज्ञात कीजिए।

OR/अथवा

Find : $\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$.

$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$ ज्ञात कीजिए।

24. Evaluate : $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \sqrt{\tan x}} dx$. [4]

$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \sqrt{\tan x}} dx$ का मान ज्ञात कीजिए।



25. Solve the following differential equation :

[4]

$$\frac{dy}{dx} + \sin(x+y) = \sin(x-y), \text{ given } y = \frac{\pi}{2} \text{ when } x = 0.$$

निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए :

$$\frac{dy}{dx} + \sin(x+y) = \sin(x-y),$$

दिया है कि जब $x = 0$ तो $y = \frac{\pi}{2}$

OR/अथवा

Form the differential equation corresponding to $y = e^x(a \cos x + b \sin x)$ by eliminating ' a ' and ' b '.

a और b का विलोपन करते हुए $y = e^x(a \cos x + b \sin x)$ के संगत अवकल समीकरण बनाइए।

26. Find the equation of the line passing through the point $(-1, -3, -2)$ and perpendicular

to the lines $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ and $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{5}$. [4]

बिन्दु $(-1, -3, -2)$ से गुजरने वाली और रेखाओं $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ तथा $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{5}$ के लम्बवत् रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।



27. Find the distance of the point $(1, 2, 3)$ from the plane $x - y + z = 5$ measured parallel to the line $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$. [4]

रेखा $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$ के समान्तर, बिन्दु $(1, 2, 3)$ से तल $x - y + z = 5$ की दूरी ज्ञात कीजिए।

28. Let \mathbb{R}^+ be the set of all positive real numbers and $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow [2, \infty)$ be function such that $f(x) = x^2 + 2$. Show that inverse of f exists and also find f^{-1} . [4]

माना धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय \mathbb{R}^+ है और $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow [2, \infty)$ पर $f(x) = x^2 + 2$ द्वारा परिभाषित फलन है। दर्शाइए कि फलन f के प्रतिलोम का अस्तित्व है और f^{-1} भी ज्ञात कीजिए।

SECTION-D

खण्ड -द

29. Solve the following system of linear equations, using matrix method : [6]

$$3x + y + z = 1$$

$$2x + 2z = 0$$

$$5x - y + 2z = 4$$

आव्यूह विधि से, निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए :

$$3x + y + z = 1$$

$$2x + 2z = 0$$

$$5x - y + 2z = 4$$

OR/अथवा



Using elementary row operations, find the inverse of the following matrix.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

प्रारम्भिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करके, निम्न आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

30. Find the equations of the tangent and normal to the curve $y(x-2)(x-3)-x+7=0$ at the point where it cuts the x axis. [6]

वक्र $y(x-2)(x-3)-x+7=0$ के उस बिन्दु, जहाँ यह वक्र x -अक्ष को काटती है, पर स्पर्श रेखा व अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए।

31. Find the smaller area enclosed by the circle $x^2 + y^2 = 4$ and the line $x + y = 2$. [6]

वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ तथा रेखा $x + y = 2$ द्वारा घिरे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

OR/अथवा

Find the derivative of $\tan \sqrt{x}$ from first principle.

$\tan \sqrt{x}$ का प्रथम सिद्धान्त से अवकलन ज्ञात कीजिए।



32. Find the value of λ for which the four points A,B,C,D with position vectors $-\hat{j} - \hat{k}$, $4\hat{i} + 5\hat{j} + \lambda\hat{k}$, $3\hat{i} + 9\hat{j} + 4\hat{k}$, $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ respectively are coplanar. [6]

λ का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए चार बिन्दु A,B,C,D जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः $-\hat{j} - \hat{k}$, $4\hat{i} + 5\hat{j} + \lambda\hat{k}$, $3\hat{i} + 9\hat{j} + 4\hat{k}$, $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ सहतलीय हों।

33. A manufacutrer makes red and blue pen. He works at least 10 hours per day. A red pen takes twice as much as time as to make a blue pen. A blue pen takes 20 minutes time to make. A red pen sells for ₹8 and at most 50 can be sold in a day. A blue pen sells for ₹5 and at most 50 can be sold in a day. The manufacturer desires to maximize his revenue. Formulate the above problem as a L.P.P. and solve it grpahically. [6]

एक निर्माता लाल तथा नीले पैन बनाता है। वह प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे काम करता है। एक लाल पैन बनाने में, एक नीले पैन को बनाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है। एक नीले पैन को बनाने में 20 मिनट लगते हैं। एक लाल पैन को ₹8 में बेचा जाता है और एक दिन में अधिकतम 50 नग बेचे जा सकते हैं। एक नीला पैन ₹5 में बेचा जाता है और एक दिन में अधिकतम 50 नग बेचें जा सकते हैं। निर्माता अधिकतम राजस्व अर्जित करना चाहता है। इस समस्या को रैखिक प्रोग्रामन समस्या बनाइए और आलेखीय विधि से हल कीजिए।



New Questions of SET - B

SECTION - A

5. Distance between planes $x + 2y - 3z = 10$ and $2x + 4y - 6z = -4$ is

(A) $\frac{\sqrt{14}}{2}$

(B) 7

(C) $\frac{\sqrt{14}}{12}$

(D) $\frac{12}{\sqrt{14}}$

तलों $x + 2y - 3z = 10$ तथा $2x + 4y - 6z = -4$ के बीच की दूरी है :

(A) $\frac{\sqrt{14}}{2}$

(B) 7

(C) $\frac{\sqrt{14}}{12}$

(D) $\frac{12}{\sqrt{14}}$

SECTION - C

17. I_3 is an identity matrix of order 3 and $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}$. Show that $A^2 = I_3$ and hence find A^{-1} and $(A^2)^{-1}$.

कोटि 3 का एक इकाई आव्यूह I_3 तथा $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}$ के लिए दर्शाइए कि $A^2 = I_3$ तथा A^{-1} और $(A^2)^{-1}$ भी ज्ञात कीजिए।

19. The perimeter of a triangle is 16cm. If one side is 6cm, find the other two sides so that the area of the triangle is maximum.

एक त्रिभुज का परिमाप 16 सेमी है। यदि एक भुजा 6 सेमी लम्बी हो, तो बाकी दो भूजाओं की लम्बाईयाँ ज्ञात कीजिए, जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम हो।



27. Solve the following differential equation :

$$x \cos x \frac{dy}{dx} + y(x \sin x + \cos x) = 1$$

अवकल समीकरण $x \cos x \frac{dy}{dx} + y(x \sin x + \cos x) = 1$ को हल कीजिए।

OR/अथवा

Solve the differential equation : $(x+2) \frac{dy}{dx} = x^2 + 4x - 5$.

अवकल समीकरण $(x+2) \frac{dy}{dx} = x^2 + 4x - 5$ को हल कीजिए।

SECTION - D

29. Find the equation of the normals to the curve $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ at the points where tangent are parallel to the y-axis.

वक्र $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ के उन बिन्दुओं, जिन पर वक्र पर डाली गई स्पर्श रेखा y-अक्ष के समान्तर है, पर अभिलबों का समीकरण ज्ञात कीजिए।

30. Find the image of the point $(1, 3, 4)$ on the plane $2x - y + z = 9$.

तल $2x - y + z = 9$ में बिन्दु $(1, 3, 4)$ का प्रतिबिम्ब ज्ञात कीजिए।



New Questions of SET - C

SECTION - A

5. Distance between planes $x + 2y - 3z = 10$ and $2x + 4y - 6z = 4$ is

(A) $\frac{\sqrt{14}}{2}$

(B) 8

(C) $\frac{\sqrt{14}}{8}$

(D) $\frac{8}{\sqrt{14}}$

तलों $x + 2y - 3z = 10$ तथा $2x + 4y - 6z = 4$ के बीच की दूरी है :

(A) $\frac{\sqrt{14}}{2}$

(B) 8

(C) $\frac{\sqrt{14}}{8}$

(D) $\frac{8}{\sqrt{14}}$

SECTION - C

23. Solve the following differential equation :

$$\frac{dy}{dx} + y \cot x = 2 \cos x$$

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + y \cot x = 2 \cos x$ को हल कीजिए।

OR/अथवा

Find the equation of the curve represented by

$$\frac{dy}{dx} = xy + x + y + 1$$

and passing through the point (2, 0).

$\frac{dy}{dx} = xy + x + y + 1$ द्वारा प्रदर्शित वक्र, जो बिन्दु (2, 0) से होकर जाता है, का समीकरण ज्ञात कीजिए।



25. Given the sum of the perimeters of a circle and square, show that the sum of their areas is least when the diameter of the circle is equal to side of the square.

दिए गए वृत्त की परिधि तथा वर्ग के परिमाप का योग के लिए, दर्शाइए कि इनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा जबकि वृत्त का व्यास, वर्ग की भुजा के बराबर हो।

27. I_3 is an identity matrix of order 3 and $A = \begin{pmatrix} -5 & -8 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Show that $A^2 = I_3$ and hence find A^{-1} and $(A^2)^{-1}$.

कोटि 3 का एक इकाई आव्यूह I_3 तथा $A = \begin{pmatrix} -5 & -8 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ के लिए दर्शाइए कि $A^2 = I_3$ तथा A^{-1} और

$(A^2)^{-1}$ भी ज्ञात कीजिए।

SECTION - D

29. Prove that the straight lines $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{2}$ and $\frac{x-5}{7} = \frac{y+8}{-5} = \frac{z-6}{11}$ are coplanar and find the equations of plane on which they lie.

सिद्ध कीजिए कि रेखाएँ

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{2}, \quad \frac{x-5}{7} = \frac{y+8}{-5} = \frac{z-6}{11}$$

समतलीय हैं। उस तल का समीकरण भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये रेखाएँ स्थित हैं।

33. Find the equations of the tangent and normal to the curve $y^2 = x^3$ at the point where x coordinate is 4.

वक्र $y^2 = x^3$ के उस बिन्दु पर जिसका x -निर्देशांक 4 है, स्पर्श रेखा व अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए।

